

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2017/चैत्र 20, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15
No. 147]	DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2017/CHAITRA 20, 1939	[N.C.T.D. No. 15

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अप्रैल, 2017

सं. फा. एसईसी/दि.न.नि./सा.चुना./2017/223.—आयोग की अधिसूचना संख्या सं. फा. एसईसी/दि.न.नि./सा. चुना./2017/8080 दिनांक: 16.03.2017 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथा संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7ख के अर्न्तगत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्शा से नीचे तालिका के कॉलम संख्या-3 में दर्शाये गये अधिकारी को उनके सामने कॉलम-4 में दर्शाये गये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के व्यय-पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ। नियुक्त यह अधिकारी दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, नियम 7 के प्रावधानों के अर्न्तगत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए व्यय-पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

तालिका

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

वार्ड नम्बर	वार्ड का नाम	पिछली प्रविष्टि	स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4
19-द	रनहौला	श्याम सुन्दर ग़ोवर, वरिष्ठ लेखा-अधिकारी, शिक्षा निदेशालय	अनिल कुमार मिश्रा वरिष्ठ लेखा-अधिकारी, शिक्षा निदेशालय
20-द	विकासपुरी		
21-द	हस्तसाल		

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

**STATE ELECTION COMMISSION****NOTIFICATION**

Delhi, the 8th April, 2017

**No. F. SEC/MCD/General Election/2017/223.**—In partial modification of the Commission's Notification No. F. SEC/MCD/General Election/2017/8080 dated 16.03.2017. I, S. K. Srivastava, State Election Commissioner in pursuance of the powers conferred under section 7B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and under the provision of Rule 7 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, hereby appoint, in consultation with Govt. Of NCT of Delhi, the officer shown in column No. 4 of the table below, as Election Expenditure Observers for the wards of South Delhi Municipal Corporation of Delhi, shown in column No. 4 against, under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to North Delhi Municipal Corporation as under:-

**TABLE****South Delhi Municipal Corporation**

<b>Ward No</b>	<b>Ward Name</b>	<b><u>Previous entry</u></b>	<b><u>Substitute Revised entry</u></b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
019-S	RANHOLA	Sham Sunder Grover Senior Accounts Officer Directorate of Education	Anil Kumar Mishra Senior Accounts Officer Directorate of Education
020-S	VIKASPURI		
021-S	HASTSAL		

S. K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner